

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्राहायण 27, 1935

No. 604]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसंबर, 2013

सा.का.नि.780(अ).— केंद्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण (संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 के नियम 6 में,—

(i) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

[फा.सं. 17012/197/2012/सीएफटी]

आर.एस.बोरा, अवर सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 27 सितंबर, 2013 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2013

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013, namely:-

1(1) These rules may be called the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investigation of High Quality Counterfeit Indian Currency Offences Rules, 2013, in rule 6,-

(i) in sub-rule (4), in the opening portion, for the words, brackets and figure “sub-rule (4)”, the words, brackets and figure “sub-rule (3)” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6), for the words “shall take into consideration, the consideration order”, the words “shall take into consideration the order” shall be substituted.

[F.No. 17012/197/2012/CFT]

R.S. BORA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 27th September, 2013.